



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2525]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2525]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3042(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 68.800 कि.मी. से 118.000 कि.मी. (राजगढ़ सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करके चार लेन का बनाने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-खंड अधिकारी, राजगढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के चूरु जिले की तहसील राजगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 68.800 कि.मी. से 118.000 कि.मी. तक (सालासर-फतेहपुर-अम्बाला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तलुक (तहसील) का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चूरु	राजगढ़	(1) गोठयाबड़ी	144	निजी	बा. चतुर्थ	1134.1793
				143	निजी	बा. चतुर्थ	456.5142
				142	निजी	बा. चतुर्थ	1740.3103
				141	निजी	बा. चतुर्थ	4552.923
				145	निजी	गै.मु. सड़क	10100.0000
				168	निजी	गै.मु. सड़क	79706.8713
				140	निजी	बा. चतुर्थ	900.1819
				135	सरकारी	बा. चतुर्थ	2368.8664
				137	सरकारी	बा. चतुर्थ	3054.4042
				138	सरकारी	गै.मु. रास्ता	189.9556
				139	सरकारी	बा. चतुर्थ	300.0000
				146	सरकारी	गै.मु. रास्ता	76.3501
				147	सरकारी	गै.मु. आबादी	522.6554
				148	सरकारी	गै.मु. धर्मशाला	785.0832
				149	सरकारी	गै.मु. रास्ता	85.5448
				167	सरकारी	गै.मु. रास्ता	174.5829
				434/133	सरकारी	गै.मु. रास्ता	90.477
				136	सरकारी	गै.मु. पटवारखाना	538.2506
				133	निजी	बा. चतुर्थ	603.3238
				152	निजी	बा. चतुर्थ	2178.0256
				132	निजी	बा. चतुर्थ	215.9776
				161	निजी	बा. चतुर्थ	1019.6252
				247	निजी	बा. तृतीय	1695.4229
				245	निजी	बा. तृतीय	2123.1027
				242	निजी	गै.मु. गोचर	217.3864
				151	निजी	गै.मु. स्कूल	1800.6176
				476/160	निजी	बा. तृतीय	587.3309
				477/160	निजी	बा. तृतीय	920.7201
				478/160	निजी	बा. तृतीय	1053.9929
				479/160	निजी	बा. तृतीय	1016.6436
				162	निजी	बा. चतुर्थ	1289.8113
				173	निजी	बा. द्वितीय	2232.155

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				164	निजी	बा. चतुर्थ	3358.0988
				165	निजी	बा. तृतीय	3711.0441
				166	निजी	बा. तृतीय	836.729
				170	निजी	बा. तृतीय	983.8579
				172	निजी	बा. द्वितीय	2534.8857
				174	निजी	बा. द्वितीय	8763.6321
				175	निजी	बा. द्वितीय	3654.3999
				176	निजी	बा. द्वितीय	1915.7721
				163	निजी	बा. चतुर्थ	1308.4797
		(2)	शयोपुरा	115	सरकारी	गै.मु. सड़क	94356.089
				116	निजी	बा. तृतीय	10363.3202
				101	निजी	गै.मु. क्वाटर	1861.199
				102	निजी	बा. चतुर्थ	2401.1183
				104	निजी	बा. चतुर्थ	3450.1717
				149	निजी	बा. चतुर्थ	95.1239
				103	सरकारी	गै.मु. रास्ता	278.8448
				133	सरकारी	गै.मु. रास्ता	214.1655
				144	सरकारी	गै.मु. रास्ता	356.3102
				162	सरकारी	गै.मु. रास्ता	742.5285
				185	सरकारी	गै.मु. रास्ता	508.3493
				186	निजी	बा. चतुर्थ	14713.9147
				184	निजी	बा. चतुर्थ	7809.0456
				161	निजी	बा. तृतीय	4597.9484
				163	निजी	बा. तृतीय	1790.173
				258/160	निजी	बा. चतुर्थ	3101.9436
				259/160	निजी	बा. तृतीय	4000.0000
				257/160	निजी	बा. तृतीय	7326.1141
				159	निजी	बा. तृतीय	11783.6211
				158	निजी	बा. तृतीय	12512.1849
				157	निजी	बा. चतुर्थ	7196.5676
				99	निजी	बा. चतुर्थ	634.4449
				100	निजी	बा. चतुर्थ	5800.7578
				154	निजी	बा. चतुर्थ	139.301
				148	निजी	बा. चतुर्थ	4479.8403
				105	निजी	बा. चतुर्थ	8.9613
				146	निजी	बा. चतुर्थ	3.2131
				143	निजी	बा. तृतीय	7559.6147
				147	निजी	बा. चतुर्थ	3730.1898
				132	निजी	बा. तृतीय	2583.4384
				141	निजी	बा. तृतीय	5803.3011
				130	निजी	बा. तृतीय	6771.6475
				248/187	निजी	बा. तृतीय	28.1920
				249/187	निजी	बा. तृतीय	28.1920

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				250/187	निजी	बा. तृतीय	28.1920
				272/142	निजी	बा. तृतीय	300.0000
				273/142	निजी	बा. तृतीय	300.0000
			(3) इन्दासर	222	सरकारी	गै.मु. सड़क	123.0611
			(4) लसेडी	112	सरकारी	गै.मु. सड़क	66699.4879
				331	निजी	बा. चतुर्थ	15189.4331
				330	निजी	बा. चतुर्थ	4200.0000
				329	निजी	बा. चतुर्थ	5143.5387
				328	निजी	बा. चतुर्थ	7609.1164
				437/289	निजी	बा. चतुर्थ	797.2575
				104	निजी	गै.मु. सड़क	0100.0000
				105	निजी	बा. चतुर्थ	382.5944
				80	निजी	बा. चतुर्थ	101.7555
				101	निजी	गै.मु. सड़क	5400.0000
				102	निजी	बा. चतुर्थ	693.7166
				332	निजी	बा. चतुर्थ	753.3008
				288	निजी	बा. चतुर्थ	2037.4941
				100	निजी	गै.मु. सड़क	2200.0000
				99	निजी	बा. चतुर्थ	220.1357
				281	निजी	गै.मु. सड़क	7719.9813
				282	निजी	बा. चतुर्थ	58700.0000
				279	निजी	बा. चतुर्थ	79.3012
				275	निजी	बा. चतुर्थ	3635.5402
				276	निजी	गै.मु. सड़क	1851.9954
				87	निजी	बा. चतुर्थ	1100.0000
				88	निजी	गै.मु. सड़क	1453.6876
				84	निजी	बा. चतुर्थ	555.0685
				85	निजी	गै.मु. सड़क	3350.0000
				86	निजी	बा. चतुर्थ	1100.0000
				453/83	निजी	गै.मु. सड़क	1700.0000
				81	निजी	बा. चतुर्थ	2326.1423
				268	निजी	बा. चतुर्थ	2746.9734
				73	निजी	बा. चतुर्थ	1211.499
				82	निजी	गै.मु. सड़क	1000.0000
				269	निजी	बा. चतुर्थ	196.1058
				452/83	निजी	गै.मु. सड़क	2300.0000
				63	सरकारी	गै.मु.	151.4141
				67	सरकारी	गै.मु. जोहड.	52.8221
				122	सरकारी	गै.मु. सड़क	594.1321
				123	सरकारी	गै.मु. जोहड.	3500.7129
				124	सरकारी	गै.मु. सड़क	400.0000
				125	सरकारी	गै.मु.	5500.0000
				126	सरकारी	गै.मु.	5839.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				120	सरकारी	गै.मु. जोहड़	17337.9785
				62	सरकारी	गै.मु. जोहड़	1343.3244
				327	सरकारी	गै.मु.	703.9257
				116	निजी	बा. चतुर्थ	13560.8773
				113	निजी	बा. चतुर्थ	6128.6136
				114	निजी	बा. चतुर्थ	7484.93
			(6) लुटानापूर्ण	83	सरकारी	गै.मु. सड़क	4261.36
				84	सरकारी	गै.मु.	4133.162
			(6) लुटाना अभिचन्द	68	निजी	बा. तृतीय	6558.6278
				67	सरकारी	गै.मु. सड़क	379.2095
				69	सरकारी	गै.मु. सड़क	1498.935
				83	सरकारी	गै.मु. सड़क	10668.2598
				72	सरकारी	गै.मु. सड़क	19800.0000
				71	निजी	बा. तृतीय	190.4008
				73	निजी	बा. तृतीय	8519.4037
				84	निजी	बा. तृतीय	1148.5892
				74	निजी	गै.मु. रास्ता	659.1599
				85	निजी	बा. तृतीय	7323.9435
				80	निजी	बा. तृतीय	1537.0823
				88	निजी	बा. तृतीय	8107.0017
				95	निजी	बा. तृतीय	8437.4583
				81	निजी	बा. तृतीय	5737.7499
				96	निजी	बा. तृतीय	3352.8334
				97	निजी	बा. तृतीय	7267.7258
				82	निजी	बा. तृतीय	4104.924
				87	निजी	बा. तृतीय	5580.0556
				86	निजी	बा. तृतीय	4297.9153
			(7) लुटाना राजू	12	निजी	बा. चतुर्थ	4076.737
				17	निजी	बा. चतुर्थ	4164.8628
				122/13	निजी	बा. चतुर्थ	1765.4189
				124/16	निजी	बा. चतुर्थ	1577.0439
				123/13	निजी	बा. चतुर्थ	2890.5835
				125/16	निजी	बा. चतुर्थ	1129.4069
				14	निजी	बा. चतुर्थ	4067.4426
				15	सरकारी	गै.मु. सड़क	17124.0997
			(8) लुदीखुबा	157	निजी	बा. चतुर्थ	7374.45
				173/88	निजी	बा. चतुर्थ	2017.51
				158	निजी	बा. चतुर्थ	3107.34
				89	निजी	बा. चतुर्थ	1211.52
				155	निजी	बा. चतुर्थ	4871.53
				153	सरकारी	गै.मु. रास्ता	209.99
				151	निजी	बा. चतुर्थ	7903.10
				174/150	निजी	बा. चतुर्थ	6006.67

4830 GI/12-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				147	निजी	बा. चतुर्थ	5430.6048
				169/133	निजी	बा. चतुर्थ	2500.7595
				168/133	निजी	बा. चतुर्थ	5464.2474
				101	सरकारी	गै.मु. सड़क	2486.6182
				117	सरकारी	गै.मु. सड़क	2600.0000
				156	सरकारी	गै.मु. सड़क	18519.7985
				99	निजी	गै.मु. सड़क	883.8009
				100	निजी	बा. चतुर्थ	2961.7299
				131	निजी	बा. चतुर्थ	5535.4216
				103	निजी	बा. चतुर्थ	11394.1745
				98	निजी	गै.मु. सड़क	4326.9305
				104	निजी	बा. चतुर्थ	3903.1159
				109	निजी	गै.मु. सड़क	3976.1975
				105	निजी	बा. चतुर्थ	4660.7471
				108	निजी	गै.मु. सड़क	711.6833
				106	निजी	बा. चतुर्थ	4177.601
				107	निजी	गै.मु. सड़क	3325.5023
				112	निजी	गै.मु. सड़क	87.5684
				172/88	निजी	बा. चतुर्थ	837.91
				145	निजी	बा. चतुर्थ	20747.02
				148	निजी	बा. चतुर्थ	297.771
				12	निजी	बा. चतुर्थ	87.5684
				124	निजी	बा. चतुर्थ	1149.0399
				122	निजी	गै.मु. सड़क	900.0000
				123	निजी	बा. चतुर्थ	4457.875
				120	निजी	बा. चतुर्थ	5273.0107
				121	निजी	गै.मु. सड़क	2000.0000
Total							929785.5677

[फा. सं. भाराप्र/पीआईयू-रींग्स/1500/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3042(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening to four lane/ two laning with paved shoulder etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.65 in the stretch of land from **Km. 68.800 to Km.118.00 (Rajgarh Section)** in the district of Churu in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Rajgarh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by orders, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be Acquired with or without structure Falling within the stretch of land from km. 68.800 to 118.000 km. of NH-65 (Salasar-Fatehpur-Ambala Section) for Tehsil Rajgarh District Churu in the state of Rajasthan

Serial number	Name of district	Name of taluk (tehsil)	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in square meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Churu	Rajgarh	(1) Gothiyabadi	144	Private	Barani IV	1134.1793
				143	Private	Barani IV	456.5142
				142	Private	Barani IV	1740.3103
				141	Private	Barani IV	4552.923
				145	Private	Gairmumkin Sadak	10100.0000
				168	Private	Gairmumkin Sadak	79706.8713
				140	Private	Barani IV	900.1819
				135	Government	Barani IV	2368.8664
				137	Government	Barani IV	3054.4042
				138	Government	Gairmumkin Rasta	189.9556
				139	Government	Barani IV	300.0000
				146	Government	Gairmumkin Rasta	76.3501
				147	Government	Gairmumkin Abadi	522.6554
				148	Government	Gairmumkin Dharamshala	785.0832
				149	Government	Gairmumkin Rasta	85.5448
				167	Government	Gairmumkin Rasta	174.5829
				434/133	Government	Gairmumkin Rasta	90.477
				136	Government	Gairmumkin Patwarkhana	538.2506
				133	Private	Barani IV	603.3238
				152	Private	Barani IV	2178.0256
				132	Private	Barani IV	215.9776
				161	Private	Barani IV	1019.6252
				247	Private	Barani III	1695.4229
				245	Private	Barani III	2123.1027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				242	Private	Gairmumkin Gochar	217.3864
				151	Private	Gairmumkin School	1800.6176
				476/160	Private	Barani III	587.3309
				477/160	Private	Barani III	920.7201
				478/160	Private	Barani III	1053.9929
				479/160	Private	Barani III	1016.6436
				162	Private	Barani IV	1289.8113
				173	Private	Barani II	2232.155
				164	Private	Barani IV	3358.0988
				165	Private	Barani III	3711.0441
				166	Private	Barani III	836.729
				170	Private	Barani III	983.8579
				172	Private	Barani II	2534.8857
				174	Private	Barani II	8763.6321
				175	Private	Barani II	3654.3999
				176	Private	Barani II	1915.7721
				163	Private	Barani IV	1308.4797
		(2)	Shyopura	115	Government	Gairmumkin Sadak	94356.089
				116	Private	Barani III	10363.3202
				101	Private	Gairmumkin Quarter	1861.199
				102	Private	Barani IV	2401.1183
				104	Private	Barani IV	3450.1717
				149	Private	Barani IV	95.1239
				103	Government	Gairmumkin Rasta	278.8448
				133	Government	Gairmumkin Rasta	214.1655
				144	Government	Gairmumkin Rasta	356.3102
				162	Government	Gairmumkin Rasta	742.5285
				185	Government	Gairmumkin Rasta	508.3493
				186	Private	Barani IV	14713.9147
				184	Private	Barani IV	7809.0456
				161	Private	Barani III	4597.9484
				163	Private	Barani III	1790.173
				258/160	Private	Barani IV	3101.9436
				259/160	Private	Barani III	4000.0000
				257/160	Private	Barani III	7326.1141
				159	Private	Barani III	11783.6211
				158	Private	Barani III	12512.1849

4830 GI/12-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				157	Private	Barani IV	7196.5676
				99	Private	Barani IV	634.4449
				100	Private	Barani IV	5800.7578
				154	Private	Barani IV	139.301
				148	Private	Barani IV	4479.8403
				105	Private	Barani IV	8.9613
				146	Private	Barani IV	3.2131
				143	Private	Barani III	7559.6147
				147	Private	Barani IV	3730.1898
				132	Private	Barani III	2583.4384
				141	Private	Barani III	5803.3011
				130	Private	Barani III	6771.6475
				248/187	Private	Barani III	28.1920
				249/187	Private	Barani III	28.1920
				250/187	Private	Barani III	28.1920
				272/142	Private	Barani III	300.0000
				273/142	Private	Barani III	300.0000
		(3)	Indasar	222	Government	Gairmumkin Sadak	123.0611
		(4)	Lasedi	112	Government	Gairmumkin Sadak	66699.4879
				331	Private	Barani IV	15189.4331
				330	Private	Barani IV	4200.0000
				329	Private	Barani IV	5143.5387
				328	Private	Barani IV	7609.1164
				437/289	Private	Barani IV	797.2575
				104	Private	Gairmumkin Sadak	0100.0000
				105	Private	Barani IV	382.5944
				80	Private	Barani IV	101.7555
				101	Private	Gairmumkin Sadak	5400.0000
				102	Private	Barani IV	693.7166
				332	Private	Barani IV	753.3008
				288	Private	Barani IV	2037.4941
				100	Private	Gairmumkin Sadak	2200.0000
				99	Private	Barani IV	220.1357
				281	Private	Gairmumkin Sadak	7719.9813
				282	Private	Barani IV	58700.0000
				279	Private	Barani IV	79.3012
				275	Private	Barani IV	3635.5402
				276	Private	Gairmumkin Sadak	1851.9954
				87	Private	Barani IV	1100.0000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				88	Private	Gairmumkin Sadak	1453.6876
				84	Private	Barani IV	555.0685
				85	Private	Gairmumkin Sadak	3350.0000
				86	Private	Barani IV	1100.0000
				453/83	Private	Gairmumkin Sadak	1700.0000
				81	Private	Barani IV	2326.1423
				268	Private	Barani IV	2746.9734
				73	Private	Barani IV	1211.499
				82	Private	Gairmumkin Sadak	1000.0000
				269	Private	Barani IV	196.1058
				452/83	Private	Gairmumkin Sadak	2300.0000
				63	Government	Gairmumkin	151.4141
				67	Government	Gairmumkin Johad	52.8221
				122	Government	Gairmumkin Sadak	594.1321
				123	Government	Gairmumkin Johad	3500.7129
				124	Government	Gairmumkin Sadak	400.0000
				125	Government	Gairmumkin	5500.0000
				126	Government	Gairmumkin	5839.300
				120	Government	Gairmumkin Johad	17337.9785
				62	Government	Gairmumkin Johad	1343.3244
				327	Government	Gairmumkin	703.9257
				116	Private	Barani IV	13560.8773
				113	Private	Barani IV	6128.6136
				114	Private	Barani IV	7484.93
			(5) Lutana Purana	83	Government	Gairmumkin Sadak	4261.36
				84	Government	Gairmumkin	4133.162
			(6) Lutana Amichand	68	Private	Barani III	6558.6278
				67	Government	Gairmumkin Sadak	379.2095
				69	Government	Gairmumkin Sadak	1498.935
				83	Government	Gairmumkin Sadak	10668.2598

4830 GI/12-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				72	Government	Gairmumkin Sadak	19800.0000
				71	Private	Barani III	190.4008
				73	Private	Barani III	8519.4037
				84	Private	Barani III	1148.5892
				74	Private	Gairmumkin Rasta	659.1599
				85	Private	Barani III	7323.9435
				80	Private	Barani III	1537.0823
				88	Private	Barani III	8107.0017
				95	Private	Barani III	8437.4583
				81	Private	Barani III	5737.7499
				96	Private	Barani III	3352.8334
				97	Private	Barani III	7267.7258
				82	Private	Barani III	4104.924
				87	Private	Barani III	5580.0556
				86	Private	Barani III	4297.9153
			(7) Lutana Raju	12	Private	Barani IV	4076.737
				17	Private	Barani IV	4164.8628
				122/13	Private	Barani IV	1765.4189
				124/16	Private	Barani IV	1577.0439
				123/13	Private	Barani IV	2890.5835
				125/16	Private	Barani IV	1129.4069
				14	Private	Barani IV	4067.4426
				15	Government	Gairmumkin Sadak	17124.0997
			(8) Ludikhooba	157	Private	Barani IV	7374.45
				173/88	Private	Barani IV	2017.51
				158	Private	Barani IV	3107.34
				89	Private	Barani IV	1211.52
				155	Private	Barani IV	4871.53
				153	Government	Gairmumkin Rasta	209.99
				151	Private	Barani IV	7903.10
				174/150	Private	Barani IV	6006.67
				147	Private	Barani IV	5430.6048
				169/133	Private	Barani IV	2500.7595
				168/133	Private	Barani IV	5464.2474
				101	Government	Gairmumkin Sadak	2486.6182
				117	Government	Gairmumkin Sadak	2600.0000
				156	Government	Gairmumkin Sadak	18519.7985
				99	Private	Gairmumkin Sadak	883.8009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				100	Private	Barani IV	2961.7299
				131	Private	Barani IV	5535.4216
				103	Private	Barani IV	11394.1745
				98	Private	Gairmumkin Sadak	4326.9305
				104	Private	Barani IV	3903.1159
				109	Private	Gairmumkin Sadak	3976.1975
				105	Private	Barani IV	4660.7471
				108	Private	Gairmumkin Sadak	711.6833
				106	Private	Barani IV	4177.601
				107	Private	Gairmumkin Sadak	3325.5023
				112	Private	Gairmumkin Sadak	87.5684
				172/88	Private	Barani IV	837.91
				145	Private	Barani IV	20747.02
				148	Private	Barani IV	297.771
				12	Private	Barani IV	87.5684
				124	Private	Barani IV	1149.0399
				122	Private	Gairmumkin Sadak	900.0000
				123	Private	Barani IV	4457.875
				120	Private	Barani IV	5273.0107
				121	Private	Gairmumkin Sadak	2000.0000

[F. No. NHAI/PIU/Reengus/1500/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.